

प्रेषक,

अतर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खेलकूद अनुभाग

देहरादून : दिनांक 24 अप्रैल, 2018

विषय : जनपद-देहरादून के अर्न्तगत पवेलियन ग्राउण्ड में स्वीमिंग पूल रूफ का निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था नामित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण में मुझे सम्यक् विचारोंपरान्त यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद-देहरादून के अर्न्तगत पवेलियन ग्राउण्ड में स्वीमिंग पूल रूफ का निर्माण कार्य हेतु उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम (इकाई खेल) देहरादून को कार्यदायी संस्था नामित किया जाता है। उक्त प्रस्तावित निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था से नियमानुसार आगणन गठित कराते हुए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 754 /VI/2018-22(14)/2017, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा0 खेल मंत्री को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, सचिव, खेलकूद विभाग, उत्तराखण्ड शासन को सचिव महोदया के संज्ञानार्थ।
3. महाप्रबन्धक/परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम (इकाई खेल) देहरादून।
4. अनु सचिव, वित्त अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन।
5. जिला कीड़ाधिकारी, देहरादून।
6. एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(दिनेश कुमार पुनेठा)
अनु सचिव।